



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2506]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2010/अग्रहायण 24, 1932

No. 2506]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2010/AGRAHAYANA 24, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2949(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1913(अ), तारीख 5 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 287.000 कि.मी. से 298.050 कि.मी. (जयपुर-रींगस सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 11 सितम्बर, 2010 को “राजस्थान पत्रिका” और “दैनिक भास्कर” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 287/000 कि.मी. से 298/050 कि.मी. तक जयपुर रींगस सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर. में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीकर	श्रीमन्मोपुर	(1) सरगोठ	2827	निजी	बारानी सोयम	0.0200	रामरतन रामस्वरूप पि. कन्हैयालाल हि. 1/2 जाति जागिड़ ब्राह्मण साकिन रामपुरा डाबड़ी तहसील आमेर जिला रहन घासी भागू पिता गैदा हि. बराबर 1/4 शंकरलाल नारु पिता हनुमान हि. 1/6 राहिन एसबीआई शाखा रींगस मूर्तहीन खेमाराम पिता हनुमान हि. 1/12 कोम जाट साकिन देह
				2828	निजी	बारानी सोयम	0.0100	गजेन्द्र कुमार पुत्र रुड़मल हि. 1/2 जाति यादव घासी भागू पि. गैदा हि. 1/4 शंकरलाल नारु खेमाराम पि. हनुमान हि. 1/4 जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन घासी भागू पि. गैदा का हिस्सा 1/4 व शंकरलाल नारु का हिस्सा 1/6 एसबीआई शाखा रींगस व खेमाराम पुत्र हनुमान हि. 1/12 राहिन आरजीबी रींगस मूर्तहीन।
				2829	निजी	बारानी सोयम	0.0200	प्रहलाद पुत्र मंशाराम जाति यादव साकिन कोटड़ी लुहारवास खातेदार
				2830	निजी	बारानी सोयम	0.0100	श्रीमती जसोदा कंवर धर्मपति माल सिंह जाति राजपूत नि. वार्ड नं. 18, रींगस खातेदार
				2833	निजी	चाही 2	0.0100	मनमरी पति बोदूराम जाति अहीर सा. देह खातेदार व सोनी बेवा बक्सा गोपीराम पि. बक्सा हि. 889/12495 मदनलाल पि. चन्द्राराम 184/12495 जाति कुमावत नि. महरोली सोहनलाल नुरलीराम लक्ष्मण महावीर हि. गोदू हि. 6/25 ओमप्रकाश महेश पि. मालीराम हि. 3/50 घासी भागू पि. गैदा हि. 3/10 मोहरी पति गीगाराम राजू हरदेव पि. गीगाराम हि. 1/30 शंकरलाल नारु राम हेमाराम पि. हनुमान हि. 3/10 राहिन खेमाराम पि. हनुमान हि. 1/10 आरजीबी रींगस मूर्तहीन
				2838	निजी	चाही 2	0.0100	मनमरी पति बोदूराम जाति अहीर सा. देह खातेदार व सोनी बेवा बक्सा गोपीराम पिता बक्सा हि. 889/12495 जाति जाट मदनलाल पिता चन्द्राराम हि. 184/12495 जाति कुमावत मोहरी बेवा गीगाराम राजू हरदेव पिता गीगाराम हि. 1/30 बोदू पुत्र भागू हि. 3/40 घासी भागू पि. गैदा हि. 3/10 शंकरलाल नारु राम खेमाराम पि. हनुमान, छाजू हि. 57/440 जाति जाट मूलचन्द पिता पैमाराम हि. 75/440 जाति कुमावत साकिन नांगल
				2846	निजी	बारानी	0.0100	रामचन्द्र उर्फ चन्दा पुत्र नारायण हि. 49/138 रामेश्वर जगदीश पि. मालीराम मुरली देवी पति मालीराम हि. 49/138 श्रवण गोपाल बनवारी लालाराम रामकिशोर बोदूराम पि. बिड़दीचन्द उर्फ बिड़दुराम प्रेमदेवी पुत्री बिड़दीचन्द उर्फ बिड़दुराम रमकी देवी पति बिड़दीचन्द उर्फ बिड़दुराम हि. 40/138 कोम अहीर
				2867	निजी	बारानी 2	0.0100	शंकरलाल पुत्र नाथूराम हि. 1/10 राहिन पीएनबी रींगस मुकन्दाराम बिन्जाराम पि. हीराराम व मन्नीदेवी बेवा हीराराम हि. 1/10 बिला रहन कालू मुरली पि. पन्नाराम हि. 2/10 राहिन पीएनबी रींगस सैरु पि. पन्नाराम हि. 1/10 बिला रहन मालीराम पि. हनुमान हि. 1/10 ब. हि. 1/2 राहिन पीएनबी रींगस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2792	निजी	बारानी सोयम	0.0250	0.3738 राहिन कालूराम पुत्र नानूराम जाति अहीर आरजीबी शाखा रींगस मूर्तहीन। 0.2000 राहिन मोहनी देवी बगड़ीया पत्नि जगराम बगड़ीया जाति जाट एसबीआई शाखा रींगस मूर्तहीन। 0.0550 भगवती देवी पत्नि घासीराम अहीर खातेदार। 0.0750 हाकम सिंह पिता जय सिंह जाति राजपूत खातेदार। 0.0825 श्रवणी देवी पत्नि छोटूराम अहीर। 0.8000 औद्योगिक परियोजना। 0.2112 अग्रसेन एग्रोकैम्प प्रा. लि. रजिस्टर्ड कार्यालय जी-7, बिंदसर प्लाजा, एस.सी. रोड जयपुर जयपुर निदेशक महेंद्र अग्रवाल पुत्र बालू लाल अग्रवाल महाजन प्लाट 4/805 विद्याधर नगर जयपुर।
				1876 @	निजी	बारानी सोयम	0.0200	झाबर अर्जुन महेश पि. सुखदेव सिंह श्रवणी देवी पत्नि सुखदेव सिंह जाति जाट
							0.1450	
		(2) परसरामपुर		1867	निजी	बारानी 2	0.0200	चांवली बेवा बूंगाराम जयनारायण प्रभातीलाल जगदीश प्रसाद बनवारीलाल मनोहरलाल पि. बूंगाराम हि. 1/2 जगदीश पुत्र बूंगाराम हि. 1/2 मीणा साकिन देह खातेदार
				1662	निजी	बारानी 2	0.0740	महेश कुमार पि. कन्हैयालाल हि. 191/432 दामोदर प्रसाद गोविन्द प्रसाद पि. कन्हैयालाल हि. 191/432 जाति महाजन साकिन रींगस राहिन आस्क डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर काइरेक्टर आलोक अजय पारीक पि. कमलनारायण पारीक 3, नटवर जाटिया हिल्स शास्त्रीनगर अजमेर हि. 25/216 जाति पारीक आडीबीआई बैंक लिमिटेड, भूतल एलआईसी बिल्डिंग भवानी सिंह रोड अम्बेडकर सर्किल जयपुर खातेदार राहिन गोविन्द प्रसाद का हिस्सा पीएनबी रींगस मूर्तहीन।
				1663	निजी	बारानी 2	0.0200	महेश कुमार पि. कन्हैयालाल हि. 1/2 आत्माराम पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/2 जाति महाजन साकिन रींगस
				1027	निजी	बारानी	0.0750	श्रीमती विद्या हरितवाल पत्नि मुरलीधर हरितवाल हि. 1/25 हरदेव सिंह गणपतराम पि. मेघाराम हि. 8/25 हरदेव सिंह पि. मेघाराम हि. 3/25 गणपतराम पि. मेघाराम हि. 33/500 मुस्तात दड़कली बेवा जगन्नाथ जीवाराम रामचन्द्र पि. जगन्नाथ हि. 12/25 हि.ब. जाति जाट साकिन देह गीता देवी पत्नि सुरजमल हि. 3/125 सुरजमल पुत्र बुद्धाराम हि. 3/100 जाति कुमावत सा. देह
				328	निजी	बारानी	0.0750	मोतीराम पुत्र गुटाराम हि. 1/2 हनुमान पुत्र कानाराम हि. 1/4 ओमप्रकाश सुभाष पि. गणेशराम, बनारसी, दुर्गा संतोष विमला अनिता पुत्रियां गणेशराम, नारायणी देवी बेवा गणेशराम हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
							0.2640	
		(3) रींगस		5663	निजी	बारानी 3	0.0200	मंदिर श्री ज्ञान गोपालजी वाके देह भोजा लक्ष्मणगढ़ खातेदार
				5664	निजी	बारानी 3	0.1200	
				5660	निजी	चाही 2	0.0650	
				5659	निजी	चाही 2	0.0600	
				5668	निजी	बारानी 3	0.1500	
				5669	सरकारी	चारागाह	0.0500	नगरपालिका रींगस खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5269	सरकारी	चारागाह	0.5300	नगरपालिका रींगस खातेदार
				5253	सरकारी	चारागाह	0.0200	नगरपालिका रींगस खातेदार
				5276	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0500	नगरपालिका रींगस खातेदार
				5280	निजी	बारानी 3	0.0800	सुरेन्द्र कुमार पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन
				5295	निजी	बारानी 3	0.0300	नारंगीदेवी पत्नि रामस्वरूप प्रेमदेवी पत्नि रामजीलाल हि 1/4 भगवती देवी पत्नि सुरजान प्रेमदेवी पत्नि रामेश्वर हि 1/4 स्काईवे कोलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड सुशील गुप्ता पुत्र मातादीन गुप्ता कौम महाजन नि. 605/5वीं मजिल अलंकार प्लाजा, ए-10, सन्दल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर हि 1/2 दर हि. 11/12, धापू देवी पत्नि श्री सुवालाल हि. 1/32 छोटी देवी पत्नि बोदूराम, भवरी देवी पत्नि मंगलचन्द हि. 1/48 कौम जाट सीतादेवी पत्नि रामबाबू हि. 1/32 कौम जागिड़ नि. नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर खातेदार
				577/1	सरकारी	बारानी 3	0.0500	नगरपालिका रींगस खातेदार
				576/1	सरकारी	बारानी 3	0.0300	नगरपालिका रींगस खातेदार
				575/1	सरकारी	गै.मु. रास्ता	0.0200	नगरपालिका रींगस खातेदार
				573	सरकारी	बारानी 3	0.0300	नगरपालिका रींगस खातेदार
				710/1	सरकारी	बारानी 3	0.1000	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. जयपुर।
				714/1	निजी	बारानी 3	0.0200	श्रीमती स्नेहलता पौदार धर्मपत्नि कांति कुमार पौदार पारसी बाजार बम्बई खातेदार
				714/2	निजी	बारानी 3		नारायण सिंह पुत्र बिन्जाराम हि. 1/3 नाथूराम पुत्र छोदराम हि. 1/3 गणपत सिंह पुत्र झूंथाराम 1/3 कौम जाट नि. तपीपल्या खातेदार।
				5273	सरकारी	बंजड़ खारड़ा	0.0120	बाबूलाल पुत्र पोखरमल हि. 17/42, हरदेव पुत्र धन्नाराम, मंगलाराम पुत्र छोदराम जाट हि. 25/42 साकीन रींगस खातेदार
				5279	निजी	बारानी 3	0.0780	बीरबल, अर्जुन पुत्र सुरजा हि. 1/2 जाति जाट बिला रहन राजेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हि 1/4 व मोती सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हि 1/4 कौम राजपूत साकिन देह खातेदार राहिन यूटीआई बैंक अजमेर रोड़ जयपुर मूर्तहीन
				5281	निजी	बारानी 3	0.0600	मोती सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजपूत राहिन यूटीआई बैंक अजमेर रोड़ जयपुर मूर्तहीन।
				5282	निजी	बारानी 3	0.0450	बाबूलाल, नौधूराम, बजरंग, गोपाल पि. बोदूराम हि. 1/2 कौम जाट धापू देवी पत्नि सुवा, हरफूल मूलचन्द, गिरधारी सुरेन्द्र पिता सुवा हि 318/85800 धापू देवी पत्नि सुवाराम 423/85800 कौम जाट रामचन्द पुत्र छोदराम हि. 677/85800 जाति कुमामत खातेदार राहिन मूलचन्द हरफूल पि. सुवा व धापू का हिस्सा आरजीबी बैंक शाखा रींगस मूर्तहीन।
				679	निजी	बारानी 3	0.1400	श्यामसुन्दर मुरारीलाल बोदूराम नवलकिशोर पुत्र दुर्गाप्रसाद हि 1/4 पुरुषोत्तम पि. रामावतार मोहनी देवी पत्नि रामावतार हि 1/4 जुगलकिशोर पुत्र रामेश्वर हि 1/4 भगवती देवी पत्नि मूलचन्द सोहनलाल सुशील कुमार, अशोक कुमार पि. मूलचन्द हि 1/4 कौम महाजन साकिन देह खातेदार
				713	निजी	बारानी 3	0.0600	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. जयपुर।
							1.8200	

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11012/66/2005/3]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2010

S.O. 2949(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O. 1913(E), dated the 05th August, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highways No. 11 on the stretch of land from Km 287.000 to Km 298.050 (Jaipur-Reengus Section) in District Sikar in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Rajasthan Patrika" and "Dainik Bhaskar", both dated the 11th September, 2010, under sub-section(3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 287/000 to KM 298/050 (Jaipur-Reengus Section) of the National Highway No. 11 in the District Sikar in State of Rajasthan

Serial Number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey/ Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sikar	Shrimadhampur	(1) Sargoth	2827	Private	Barani Soyam	9.0000	Ramratan Ramswaroop Father Kanhiyalal sh. 1/2 bycaste Jangid Brahman R/o Rampura Dabri Tehsil Amer Without Mortgage Ghasi Bhagu Father Gaiinda Sh. Equal 1/4 Shankarlal Naroo Father Hanuman Sh. 1/6 Mortgage to SBI Branch Reengus Khemaram Father Hanuman Sh. 1/12 bycaste Jat
				2828	Private	Barani Soyam	0.0100	Gajender Kumar S/o Rudmal sh. 1/2 bycast Yadav Ghasi Bhagu Father Gaiinda sh. Eq. 1/4 Shankarlal Narooram Khemaram Father Hanuman Sh. 1/4 bycaste Jat Mortgage Sh. 1/4 of Ghasi Bhagu Father Gaiinda and Share 1/6 of Shankarlal Naroo SBI Branch Reengus and Khemaram S/o Hanuman Sh. 1/12 Mortgage to RGB Reengus
				2829	Private	Barani Soyam	0.0200	Prahlad S/o Mansaram bycaste Yadav R/o Kotri Luharwas
				2830	Private	Barani Soyam	0.0100	Smt. Jasoda Kanwar W/o Mal Singh Rajpoot R/o W. N. 18, Reengus

4772 40/10-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2833	Private	Irrigated 2	0.0100	Manbhari W/o Boduram Bycaste Aheer and Soni widow of Baksa Gopiram Father Baksa Sh. 669/12495 Madanlal Father Chandrarani 164/12495 Bycaste Kumawat R/o Maharoli Sohanlal Murliram Lachhman Mahaveer Sh. Godu Sh. Equ. 6/25 Omprakash Mahesh Father Maliram Sh. eq. 3/50 Ghasi Bhagu Father Gaiinda Sh. 3/10 Mohari W/o Gigaram Raju Hardev Father Gigaram Sh. 1/30 Shankarlal Narooram Hemaram Father Hanuman Sh. 3/10 Mortgage Sh of Khemaram Father Hanuman Sh. 1/10 to RGB Reengus
				2838	Private	Irrigated 2	0.0100	Manbhari w/o Boduram Bycaste Aheer and Soni widow of Baksa Gopiram Father Baksa Sh. 669/12495 by caste Jat Madanlal Father Chandrarani 164/12495 Bycaste Kumawat Mohari widow Gigaram Raju Hardev Father Gigaram Sh. 1/30 Bodu S/o Bhagu Sh. 3/10 Ghasi Bhagu Father Gaiinda Sh. 3/10 Shankarlal Narooram Khemaram Father Hanuman Chhaju Sh. 57/440 Bycaste Jat Moolchand Father Pemaram Sh. 75/440 Bycaste Kumawat R/o Nangal
				2846	Private	Unirrigated	0.0100	Ramchandra urf Chandra S/o Narayan Sh. 49/138 Rameshwar Jagdish Father Maliram Muri Devi w/o Maliram Sh. 49/138 Sravan Gopal Banwari Lalaram Ramkishore Boduram Father Birdichand urf Birduram Premdevi D/o Birdichand urf Birduram Ramki Devi W/o Birdichand urf Birduram Sh. 40/138 bycaste Aheer
				2867	Private	Unirrigated 2	0.0100	Shankarlal S/o Nathuram sh. 1/10 mortgage to PNB Reengus Mukndaram Binjaram Father Heeraram and Mannidevi widow Heeraram Sh. Eq. 1/10 without mortgage Kalu Muri Father Pannaram Sh. 2/10 Mortgage to PNB Reengus Bhainru Father Pannaram sh. 1/10 Without Mortgage Maliram Father Hanuman Sh. 1/10 sh.eq. 1/2 Mortgage to PNB Reengus.
				2792	Private	Barani Soyam	0.0250	0.3738 Mortgage to Kaluram S/o Nanuram Bycaste Aheer RGB Branch Reengus 0.2000 Mortgage Mohani Devi Bagaria W/o Jagram Bagaria Bycaste Jat SBI Branch Reengus 0.0550 Bhagwati Devi W/o Ghasiram Aheer 0.0750 Hakam Singh Fathe Jai Singh Bycaste Rajpoot 0.0625 Sarwani Devi W/o Chhoturam Aheer 0.6000 Industrial Purpose 0.2112 Agrasen Agrocamp Pvt. Ltd. Reg. Office G-7, Windsor Plaza, S. C. Road, Jaipur through Director Mahendra Agarwal S/o Babulal Agarwal Mahajan Plot No. 4/805 Vidyadhar Nagar, Jaipur.
				1876/3339	Private	Barani Soyam	0.0200	Jhabar Arjun Mahesh Father Sukhdev Singh Sarvani Devi W/o Sukhdev Singh bycaste Jat.
							9.1250	
		(2) Parasrampura		1867	Private	Unirrigated 2	0.0200	Chanwali widow Dungaram Jaynarayan Prabhatilal Jagdish Prasad Banwarilal Manoharlal Father Dungaram Sh. 1/2 Jagdish S/o Dungaram Sh. 1/2 Meena
				1662	Private	Unirrigated 2	0.0740	Mahesh Kumar Father Kanhiyalal sh. 191/432 Damodar Prasad Govind Prasad Father Kanhiyalal Sh. 191/432 by caste Mahajan R/o Reengus Mortgage Aask Dairies Private Limited by Director Alok Ajay Pareek Father Kamal Narayan Pareek, 3 Natwar Jatiya Hills Shastri Nagar Ajmer Sh. 25/216 bycaste Pareek IDBI Bank Ltd, Ground Floor, LIC Building Bhawani Singh Road, Ambedkar Circle, Jaipur Mortgage sh. of Govindprasad to PNB Reengus.
				1663	Private	Unirrigated 2	0.0200	Mahesh Kumar Father Kanhiyalal Sh. 1/2 Atmaram S/o Kanhiyalal Sh. 1/2 bycaste Mahajan R/o Reengus

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1027	Private	Unirrigated	0.0750	Smt. Vidya Haritwal W/o Murlidhar Haritwal Sh. 1/25 Hardev Singh Ganpat Ram Father Medharam Sh. 6/25 Hardev Singh Father Medharam Sh. 3/25 Ganpat Ram Father Medharam Sh. 33/500 Musmat Dadkali widow Jaganath Jeevaram Ramchandra Father Jaganath Sh. 12/25 sh.eq. bycaste Jat Geeta devi w/o Surajmal Sh. 3/125 Surajmal S/o Budharam Sh. 3/100 bycaste Kumawat
				328	Private	Unirrigated	0.0750	Motiram S/o Gutaram 1/2 Hanuman S/o Kanaram 1/4 Omprakash Subhash S/o Ganeshram Banarsi, Durga Santosh Vimla Anita D/o Ganeshram, Narayani Devi widow Ganeshram Sh. 1/4 bycaste Jat
							0.2640	
			(3) Reengus	5663	Private	Unirrigated 3	0.0200	Temple Shri Gyan Gopalji Wake Deh Moja Laxmangarh A/c holder
				5664	Private	Unirrigated 3	0.1200	
				5660	Private	Irrigated 2	0.0650	
				5659	Private	Irrigated 2	0.0600	
				5668	Private	Unirrigated 3	0.1500	
				5669	Government	Charagah	0.0500	Municipality Reengus
				5269	Government	Charagah	0.5300	Municipality Reengus
				5253	Government	Charagah	0.0200	Municipality Reengus
				5276	Government	Way	0.0500	Municipality Reengus
				5280	Private	Unirrigated 3	0.0800	Surender Kumar S/o Gugalkishor bycaste Mahajan
				5295	Private	Unirrigated 3	0.0300	Narangi Devi W/o Ramswaroop Premdevi W/o Ramjilal Sh. 1/4 Bhagwati Devi W/o Surgyan Premdevi W/o Rameshwar Sh. 1/4 Skyway Colonizers Private Limited Sushil Gupta S/o Matadin Gupta bycaste Mahajan R/o 505/5th Floor, Alankar Plaza, A-10, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur sh. 1/2 rate sh. 11/12, Dhapu Devi w/o Suwalal Sh. 1/32 Chhoti devi w/o Boduram, Bhanwari Devi W/o Mangalchand Sh. 1/48 bycaste Jat Sitadevi W/o Rambabu Sh. 1/32 bycaste Jangid R/o Nangal Purohit Tehsil Amer Distt Jaipur
				577/1	Government	Unirrigated 3	0.0500	Municipality Reengus
				576/1	Government	Unirrigated 3	0.0300	Municipality Reengus
				575/1	Government	Way	0.0200	Municipality Reengus
				573	Government	Unirrigated 3	0.0300	Municipality Reengus
				710/1	Government	Unirrigated 3	0.1000	Rajasthan State Industrial Development and Investment Nigam Ltd Jaipur
				714/1	Private	Unirrigated 3	0.0200	Smt. Sanehlata Poddar W/o Kanti Kumar Poddar, Parasi Bazar, Bombay
				714/2	Private	Unirrigated 3		Narayan Singh S/o Binjaram Sh. 1/3 Nathuram S/o Chhoturam Sh. 1/3 Ganpat Singh S/o Jhunjtharam 1/3 Bycaste Jat R/o Tapiplya
				5273	Government	Banjad Kharda	0.0120	Babulal S/o Pokharmal Sh. 17/42, Hardev S/o Dhannaram, Manglaram S/o Chhoturam Sh. 25/42 r/o Reengus
				5279	Private	Unirrigated 3	0.0780	Birbal, Arjun S/o Surja Sh. 1/2 bycaste Jat Without Mortgage Rajendra Singh S/o Prahlad Singh Sh. 1/4 and Moti Singh S/o Prahlad Singh Sh. 1/4 Bycaste Rajpoot Mortgage to UTI Bank Ajmer Road Jaipur
				5281	Private	Unirrigated 3	0.0600	Moti Singh S/o Prahlad Singh Rajpoot Mortgage to UTI Bank Ajmer Road Jaipur
				5282	Private	Unirrigated 3	0.0450	Babulal, Chothuram, Bajrang, Gopal Father Boduram sh. 1/2 bycaste Jat Dhapu Devi W/o Suwa, Harphool, Moolchand Girdhari Surendra Father Suwa Sh. 318/65800 Dhapu Devi W/o Suwaram 423/65800 bycaste Jat Ramchandra S/o Chhoturam Sh. 677/65800 Bycaste Kumawat Mortgage to Moolchand Harphool Father Suwa and Share of Dhapu RGB Branch Reengus

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				679	Private	Unirrigated 3	0.1400	Shyamsunder Murarilal Boduram Navalkishore S/o Durgaprasad Sh. 1/4 Purushottam Father Ramwatar Mohini Devi W/o Ramwatar Sh. 1/4 Jugalkishore S/o Rameshwar Sh. 1/4 Bhagwati Devi W/o Moolchand Sohanlal Sushil Kumar Ashok Kumar Father Moolchand Sh. 1/4 bycaste Mahajan
				713	Private	Unirrigated 3	0.0600	Rajasthan State Industrial Development and Investment Nigam Ltd Jaipur
							1.8200	

[F. No. NHAI/BOT/11012/66/2005/3]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.